

श्रीमती इन्दिरा गांधी : माननीय सदस्य का सवाल सब सुन चुके हैं और इसका उत्तर भी कई दफे दिया गया है कि ऐसी बात नहीं है कि हम इस चीज में बिल्कुल हेल्पलेस हैं। यह स्थिति सुधरती जा रही है, लेकिन पूरी तौर से नहीं सुधरी है।

Transmitters for Rajkot and Calcutta

*182. **SHRI D. N. PATODIA:** Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether any programme has been drawn up for installing super power transmitters of the type proposed for Rajkot and Calcutta at other regions of the country with a view to improve the internal broadcasting of the A.I.R. Station; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. K. SHAH): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

SHRI D. N. PATODIA: With a view to improve internal broadcasting, there was a recommendation made by the Chanda Committee to constitute a corporation on the lines of the BBC. What steps have Government taken to implement that recommendation? Secondly, has the scheme of providing transistor sets at Rs. 51 each by small scale industry made any progress, and if so, by what time these transistor sets are likely to be available?

SHRI K. K. SHAH: As regards the first question, it was answered on the floor of the House a week ago. However, for the information of the hon. Member I can repeat it by saying that it is under consideration.

SHRI D. N. PATODIA: By what time a decision will be taken?

SHRI K. K. SHAH: Very difficult to say.

SHRI D. N. PATODIA: He has to indicate some time.

SHRI K. K. SHAH: I will try my best to expedite.

SHRI S. K. TAPURIAH: Will it be in his lifetime?

MR. SPEAKER: We are losing time.

SHRI K. K. SHAH: As regards the second question, I have got one sample and on that the price quoted is Rs. 51.

AN HON. MEMBER: Lay it on the Table.

SHRI K. K. SHAH: There is another sample on which the price quoted is Rs. 65. I am sure that within about two months some of these transistors will be in the market.

SHRI D. N. PATODIA: Is the hon. Minister aware that on the northern borders of India our transmission is very weak so much so that in areas like Barmer whereas Radio Pakistan can easily be heard, AIR cannot be heard? What arrangements do Government propose to make so that on the northern borders of India our transmission arrangements may be made stronger?

SHRI K. K. SHAH: Four new transmitters of 100 kw. one of short wave and three of medium wave, will be coming into existence by the first half of 1968.

SHRI RANGA: We are in the first half of 1968.

SHRI K. K. SHAH: One will be in Khampur (Delhi), the second in Jullundur, the third in Calcutta and the fourth in Dibrugarh.

SHRI D. N. PATODIA: I want to know what is going to be done at Barmer where Pakistani Radio is being taken advantage of?

SHRI K. K. SHAH: So far as Rajasthan is concerned, I have already answered this question in the past that in the northern border of Rajasthan one radio is going to come into existence.

श्री शिव नारायण : ए० आई० आर० का जो ट्रांसमिटर है वह इतना मजबूत है कि पार्लियामेंट के मੈम्बरों की जो स्पीचिज होती हैं उनको सुनना मुश्किल हो जाता है। बाहर के लोगों की बात को तो आप छोड़ ही दें। पाकिस्तान, सिलोन, को सुनना मुश्किल है। लेकिन ए० आई० आर० में जो अर्रेंजमेंट आपका है उस में कुछ बाहरी एलीमेंट्स आ गए हैं, व एव्वाःंट वहाँ हो गए हैं। मैं चाहता हूँ कि इसकी जाँच हो और इसको ठीक किया जाए।

SHRI K. K. SHAH: This is a suggestion for action.

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI): Certainly we should be alert to see that no such elements come into Government departments, but I would beg to hon. Members not to make general observations of this kind. It is very unfair to the people who are working in the Ministry.

श्री प्रेम चन्द वर्मा : हिमाचल प्रदेश का ए० आई० आर० स्टेशन जहाँ पर हाई पावर ट्रांसमिटर लगाने का फैसला किया गया था उसके मुताल्लिक अब तक क्या कार्यवाही की गई है और कब तक वह ट्रांसमिटर वहाँ पर लग जाएगा ?

SHRI K. K. SHAH: The site has been selected and the contract also has been given for construction of civil works. The transmitter is available, and as soon as the civil works are ready, the transmitter will be installed.

श्री ओ० प्र० त्यागी : क्या यह आपको पता है कि दूसरे देशों में भेजे जाने वाले समाचारों के लिए जो ट्रांसमिटर आपके पास हैं वह बहुत कमजोर हैं और विदेशों में रहने वाले भारतीय बहुत उत्सुकता से अपने यहाँ के समाचारों को सुनना चाहते हैं लेकिन सुन नहीं पाते हैं और पाकिस्तान का रेडियो इतना जोरदार है कि जब भी वे रेडियो खोलते हैं तो पाकिस्तान का निकल आता है और भारतवर्ष का छिप जाता है उसके सामने ? यद हर्षा, तो इस कमी को दूर करने की आप कभी चेष्टा करेंगे।

SHRI K. K. SHAH: That is why two super power transmitters are being installed, one which will cover the Middle East and another which will cover Southeast Asia. In addition, two very high short-wave transmitters are also being installed.

SHRI M. L. SONDHI: Middle East is an imperialist term. We should use the term West Asia.

SHRI K. NARAYANA RAO: After the reorganisation of the States on a linguistic basis, States like Andhra are not getting the full benefits of the transmitting arrangements, because Andhra, for instance, earlier used to get all the benefits of Madras State which have been now denied. In the light of this, is the Ministry undertaking to provide a high power transmitting centre for each linguistic State?

SHRI K. K. SHAH: The present transmitters are enough to cover each region.

श्री बक्षी गुलाम मुहम्मद : श्रीनगर का जो ट्रांसमीटर है वह बहुत वीक है और शायद वीकेस्ट है। तमाम प्रोपेगंडा का जो निशाना है वह काश्मीर है। मैं जानना चाहता हूँ कि उस सिलसिले में आपने क्या सोचा है ?

شوی نگر کا جو ٹرانسمیٹر ہے وہ بہت
ویک ہے اور شدید ویکسٹ ہے - تمام
پروپیگنڈا کا نشانہ ہے وہ کشمیر ہے -
میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس سلسلہ
میں آپ نے کیا سوچا ہے -

SHRI K. K. SHAH: So far as the Srinagar transmitter is concerned, it is a medium-wave transmitter. Because of the hilly terrain, it is not wise to put up a very powerful transmitter there. If necessary, an additional station should be put up, and we are trying to augment so far as the other project is concerned.

श्री बल्लू गुलाम मुहम्मद: अगर यही बात है तो चीन और मास्को के जो हिल्ली पार्ट्स हैं उन के ट्रांसमिटर्स को तो फंक्शन करना ही नहीं चाहिये। अगर वहाँ वे फंक्शन कर सकते हैं तो यहाँ के पहाड़ों में क्या है कि यह फंक्शन नहीं कर सकता है ?

اگر یہی بات ہے تو چین اور ماسکو کے ہلی پارٹس ہوں ان کے ٹرانسمیٹرز کو تو فلکشن کرنا ہی نہیں چاہئے - اگر وہاں وہ فلکشن کر سکتے ہوں تو یہاں کے پہاڑوں میں کیا ہے کہ یہ فلکشن نہیں کر سکتا ہے -

SHRI MANUBHAI PATEL: There was powerful transmitter in Baroda when it was not merged. After merger, that was removed to some other place. There was a radio station at Baroda, and I want to know whether it will be reinstated.

SHRI K. K. SHAH: So far as Baroda is concerned, there is a transmitter working at present.

पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी प्रचार

+

* 183. डा० सूर्य प्रकाश पुरी :

श्री रामावतार शर्मा :

श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या बंदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान बार बार यह बात स्वीकार करने के पश्चात भी, कि वह ताशकन्द समझौते का पालन करता है, विदेशों में लगातार भारत विरोधी जहरीला प्रचार कर रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी समाचारपत्र तथा रेडियो द्वारा भी ऐसा प्रचार किया जाता है ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को अथवा किसी मित्र देश को, इस बारे में कोई विरोध-पत्र भेजा है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके बारे में उन की क्या प्रतिक्रिया है ?

बंदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). जी हाँ।

(ग) और (घ). जी हाँ; हमने समय-समय पर पाकिस्तान सरकार से विरोध प्रकट किया है लेकिन उनकी प्रतिक्रिया हमेशा नकारात्मक रही है।

डा० सूर्य प्रकाश पुरी : क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान द्वारा प्रसारित कार्यक्रम की ओर गया है जिस में वे यहाँ के नेताओं के बारे में जिन में प्रधान मंत्री का नाम भी शामिल वे करते हैं, बड़ी गन्दी बातें कहते हैं ? यह जो प्रोग्राम साढ़े सात बजे से आठ बजे तक होता है और जिस में भारत के विरुद्ध प्रोपेगंडा किया जाता है उसके सम्बन्ध में कोई आपने विरोध पत्र यहाँ से भेजा है ?